

BSE Limited, New Trading Ring, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Mumbai-40001 Scrip Code: 542729 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai, Maharashtra - 400051 Symbol: DCMNVL

Sub: Intimation Under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 pertaining to Newspaper Advertisement for Notice of postal ballot

Dear Sir(s),

Please find enclosed the copies of newspaper advertisements published in Financial Express - all India editions (in English) and Jansatta Delhi Edition (in Hindi) on August 31, 2019 with respect to the Issue of Notice of Postal Ballot to the shareholders.

The advertisements may also be accessed on the website of the Company at the link. http://www.dcmnvl.com/downloads/files/n5d6779f51cb74.pdf

The above is for your information, records and reference please.

Thanking You,

For DCM Nouvelle Limited

Company Secretary

Encl: above

ember, 2019 date and time

com e grievances

Phone No. 3) - 4603 4034 11) 9448481544 2) - 2499 4360

vailable at the ady cast their AGM through or to the AGM s again of the Board

India Limited Beas Moitra ny Secretary

Abbas Ali India 2559 4145 ds.com

EETING LOSURE

any will be 10:30 a.m. Party Hall I.G. Road

ancial year ing Notice, ng out the been sent to nail ID with sfer Agent d) to their post and stered their

Report for ndance slip. 's website

al form or date i.e., eir votes on e-voting or

transacted for remote

(Friday) at P.M. (IST). ne aforesaid disabled by

ot exercised vote at the businesses vided to the rvotes.

s regarding Questions ilable at or write an

Section 91 42 of the applicable and share closed from ive), for the 27th Annual

s Limited

ny Secretary

For and on behalf of Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited

> CS Sachin Saluja Company Secretary (Membership No.: A24269)

DCM NOUVELLE

DCM NOUVELLE LIMITED

Parel, Mumbai-400013 or write an email to CDSL on helpdesk.evoting@cdslingla.com

or contact at help desk 1800-22-55-33

Date: 30th August, 2019

Mace: Gurugram (Gurgaon)

Registered office: 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-110008

Corporate Identity Number: L17309DL2016PLC307204 Phone: 011-4501 3348.

E-mail: dcmnouvelleltd@gmail.com Website: www.dcmnvl.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given, pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Management Rules"), the Company is seeking approval of the Members by way of Special and/or Ordinary Resolution (s) for the items as set forth in the Notice of the Postal Ballot dated August 26, 2019.

Members are hereby informed that dispatch of the Notice of the Postal Ballot along with Postal Ballot Form have been completed on August 30, 2019.

The Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form has been sent by email to those members who have registered their email addresses with their depository participants (in case of shares held in demat form) or with the Company's Registrar & Share Transfer Agent (in case of shares held in physical form). For members whose email IDs are not registered, physical copies have been sent through physical mode along with a selfaddressed postage-prepaid Business Reply Envelope (BRE).

In compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of Section 108 & 110 of the Act read with the Rule 20 & 22 of the Management Rules, the Company is pleased to provide electronic voting ("e-voting") facility through Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") to its members to enable them to cast their votes electronically.

Pursuant to Rule 22(5) of the Management Rules, the Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Pragnya Parimita Pradhan, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to conduct postal ballot and the e-voting process in a fair and transparent manner.

Only a Member holding shares as on the cut-off date i.e. August 23, 2019, is entitled to exercise his vote through e-voting/Postal Ballot.

Date: August 30, 2019

Place: New Delhi

- The voting period shall remain open from Saturday, August 31, 2019 (9:00 am onwards) till Monday, September 30, 2019 (upto 5:00 pm). No voting shall be allowed beyond 5:00 pm of September 30, 2019.
- 2. Please note that if any Postal Ballot Form(s) received after 5:00 pm on Monday, September 30, 2019, then it shall be treated as if no reply has been received from the member.
- 3. If a Shareholder votes through e-voting facility as well as cast their vote through the Postal Ballot Form, the votes cast through e-voting shall only be considered by the Scrutinizer and voting done by Postal Ballot will be treated as invalid.
- 4. Members can also download the Postal Ballot Form from the link https://evoting.karvy.com or from the Company's website i.e. www.dcmnvl.com; or seek a duplicate Postal Ballot Form from Skyline Financial Services Private Limited, D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase -I, New Delhi-110020, Tel: 011-41044923, Email: info@skylinerta.com
- 5. The results of the Postal Ballot will be announced on Tuesday, October 01, 2019. The results along with Scrutinizer's report will also be communicated to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Limited and the same will also be placed on Company's website i.e. www.dcmnvl.com and the website of karvyi.e. https://evoting.karvy.com.
- 6. In case of any query /grievance regarding e-voting, the members may contact Mr. D S Nagaraja, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at evoting@karvy.com or phone no. 040 - 6716 1518 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications. Members can also visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting@karvy.com or the undersigned.

By the order of the Board of Directors For DCM Nouvelle Limited

> **Kunal Agrawal** Company Secretary

Financial Express- 31.8.2019

coimbatore@linkintime.co.in and furnish their e-mail id for getting the Notice and the Annual Report.

Once the remote e-vote on a resolution is cast by the Members, they shall not be allowed to change it subsequently.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote again at the meeting.

In case of gueries on e-voting, Members may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in or contact our RTA, Link Intime India Pvt. Limited, Surya, 35, May Flower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641 028. Phone No.: 0422 2314792, E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

Sri M.D. Selvaraj, Proprietor, M/s. MDS & Associates, Company Secretaries, Coimbatore has been appointed as scrutinizer for conducting remote e-voting process and voting through ballot form at the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any query or issue or grievance, members may contact Sri. S. Baskar, Senior Vice President & Company Secretary through e-mail id 'shares@sakthisugars.com' or through Phone No. 0422 4322222

The result of voting on the resolutions shall be declared within 48 hours of conclusion of the AGM. The results declared along with Scrutinizer's Report shall be displayed on the notice board of the Company at its Corporate Office at 180 Race Course Road, Coimbatore as well as at the Registered Office. It will also be posted on the Company's website www.sakthisugars.com and the Website of LIIPL https://instavote.linkintime.co.in and communicated to Stock Exchange.

> By order of the Board S. Baskar

Coimbatore 30th August 2019

Senior Vice President & Company Secretary

Calcutta Jute Manufacturing Co. Ltd. CIN: L17232WB1929PLC006470

Regd. Office: 24/1/1, Alipore Road, 3rd Floor, Kolkata - 700 027 Phone: 033-24500500, Fax- 033-24480047 E-mail: cjmcl10@gmail.com, Website: www.cjmcl.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

1) ANNUAL GENERAL MEETING:

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 26, 2019 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company at 24/1/1, Alipore Road, 3rd Floor, Kolkata 700 027 to transact the business set out in the notice convening the AGM.

The Company has on 30th August, 2019 completed the dispatch of the Annual Report along with Notice of the AGM for the Financial Year ended 31st March, 2019 and the reports of the Auditors' and Directors' thereon, to the members, whose names have appeared in the Register of Members as on 16th August, 2019 individually at their Registered addresses. The aforesaid documents have been sent electronically to those Shareholders who have registered their

Shareholder are hereby informed that the Notice of the Meeting and aforesaid documents are available on the Company's Website www.cjmcl.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com. Further, it is also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM and also at the Meeting. 2) BOOK CLOSURE:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and related rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from 23rd September, 2019 (Monday) to 26th September, 2019 (Thursday) (both days inclusive)

3) E-VOTING:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and related rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting), provided by CDSL and the business may be transacted through such voting, on all resolutions set forth the Notice, for which the Company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL as e-voting agency.

The remote e-voting period commences on Monday, 23rd September, 2019 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, 25th September, 2019 (5.00 p.m.). During this period Members of the Company, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, holding shares as on the cut off date i.e. Friday, 20th September, 2019, shall be entitled to avail the facility of remote e-voling as well as voting in the Annual General Meeting of the Company. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he / she shall no

be allowed to change it subsequently or cast vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date (Friday, 20th September, 2019), may obtain the login ID and password by sending a request at

helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Place: Kolkata

Date: 31st August, 2019

The Members, who have not cast their vote through Remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The facility for voting through Poll paper shall be made available at the Meeting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Further, for any grievances related to remote e-voting, you can contact Mr. Manish Vimal Agarwal (DIN: 05178502), Managing Director, 24/1/1, Alipore Road, Kolkata-700027, of the company at 033 2450 0500 or through e- mail at cimcl10@gmail.com from Monday to Friday between 11:00 a.m. to 6:00 p.m.

The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website i.e. www.cjmcl.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com, besides being communicated to the Stock Exchange.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. The Instrument appointing the Proxy, in Order to be effective, must be deposited at the Company's Registered Office, duly completed and signed, not less than 48 (forty-eight) hours before the commencement of the ASM

By Order of the Board of Directors For Calcutta Jute Mfg. Co Ltd.

Manish Vimal Agarwal Managing Director DIN: 05178502

'cut-off date). The Remote e-2019 at 09.00 A. e-voting module shall not be allow The facility for v the AGM. The N attend the AGM A person whos register of bene date i.e. Septer remote e-votin becomes a mei meeting and ho obtain the helpdesk.evotir registered with can be used for For details relat case of any que Frequently As www.evotingir helpdesk.evoti with facility for Company Secre The details of www.jiyaeco.c

up equity share

Place: Ahmed Date: August

www.evotingii

Regd. 0

Emai

Limited (NS Members w Company at 30.08.2019 self-address registered th The Compa Resolution of

Members o Section 110

Manageme

voting by ele website of t The Compa who are Me to enable the

information Mr. P.P. Zibi J appointed a a fair and t Postal Ballo 29.09.2019 Form duly fi at C/o Apol Junction, Pa 29.09.2019 be allowed

If any Memi Form is rec the date of means) wil reply from not received obtain a du

The result (on Tuesday aforesaid re on the Notic Office and of the Com website viz.

Any query to Ms. Palla Mills Comp Email: evo 180022299

Any query other than Apollo Tyre Email: inves

Date : 30.0 Place : Gur

क्षेत्रीय संचालक, उत्तरी क्षेत्र क्षेत्र, नई दिल्ली इनके सम्मुख कंपनी कायदा, 2013, कंपनी कायदा 2013 के अनुच्छेद 13 (4) और कंपनीज (इनकॉर्पोरेशन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के बारे में

स्थलांतरीत करने हेतृ विज्ञापन

केंद्र सरकार

इंडो-फिन प्रोडक्टस प्रा लि के बारे में (सीआयएनः यू74899डीएल1992 पीटी048200)

जिनका पंजीकृत कार्यालय जीएफ 21, हंस भवन, बीएस जफर मार्ग, नई दिल्ली-110022 नई दिल्ली के यहां स्थित है

--- आवेदक/याचिकादाता सभी जनता को इस के जरीये सुचना दी जा रही है की कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ''एनसीटी दिल्ली' से ''हरयाणा राज्य'' में स्थलांतरीत करने लिये कंपनी के मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन में संशोधन करने के लिये 25.07.2019 के दिन संपन्न हुए एक्स्ट्रा ओर्डीनरी जनरल मीटिंग में व्यतीत किये गये विशेष प्रस्ताव को केन्द्र सरकार से अनुमती प्राप्त करने के लिये कंपनी कायदा, 2013 अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आवेदन पत्र देने का कंपनी विचार कर रही है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव के कारण किसी भी व्यक्ती जिनके किसी भी स्वारस्य को बाधा होने की स्थिती में वह उसे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक आवेदन को भर के तथा उनके/उसके आपत्ति का स्वरूप शपथपत्र में बयान करके उनके/उसके आपत्ती और विरोध के कारणों के साथ क्षेत्रीय संचालक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 रा माला, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 इनके पास प्रस्तुत सूचना के जारी होने के दिन से चौदह दिन के भीतर संपर्क करे और उस की एक प्रत आवेदक कंपनी के उपर्युक्त किये गये पंजीकृत कार्यालयः जीएफ 21. हंस भवन, बी एस जफर मार्ग, नई दिल्ली-110022 पर भेजे।

> इंडो-फिन प्रोडक्टस प्रा लि के लिये और उनकी ओर से अरविंद चिमा संचालक डीआयएनः ००९१२२१०

जालंधर ऑटो सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड CIN: L35999HR1998PLC033943 पंजी. कार्यालयः 458-1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने,

दिनांकः 30.08.2019

जगहः नई दिल्ली

गुरूग्राम (गुडगांव)-122001, हरियाणा, भारत ईमेल आईडीः info@imaindia.com; वेबसाइटः www.jmaindia.com फोन नं: +91 124-3019210, 211, फैक्स: 0124-4233868 70वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड के सदस्यों की सत्तरवीं (७०वीं) वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") शुक्रवार, २७ सितंबर, २०१९ को ४५८-१/१६ सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरूग्राम, हरियाणा-122001, में उसके पंजीकृत कार्यालय में 10:30 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरण (स्टैण्डएलॉन एवं समेकित) तथा उस पर निदेशकों एवं ऑडिटरों के रिपोर्ट, प्रॉक्सी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्ची से शामिल ७०वीं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर सदस्यों को भेजी जा रही है तथा जिन्होंने कंपनी के पास अपने ई-मेल पते दर्ज नहीं कराए हैं, उन सदस्यों को पंजीकृत बुक पोस्ट से भेज दी गई है। एजीएम स्थल पर सुगमता से पहुंचने के लिए मार्ग दर्शिका तथा महत्वपूर्ण लैंड मार्क का भी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम, 2013") की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में नदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 21 सितंबर, 2019 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अधीन बनाए गऐ नियम के अनुपालन में यह कंपनी एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों / व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए सदस्यों को समक्ष बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा व्यवस्थित ई-वोटिंग सेवाएं प्राप्त की हैं। मैसर्स. विजय के. सिंघल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेट्रीज, नई दिल्ली को स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 24 सितंबर, 2019 (9:00 बजे पूर्वा.) से वीरवार, 26 सितंबर, 2019 को (5:00 बजे साय) तक होगी। उसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का मताधिकार कट-ऑफ तिथि, शुक्रवार 20 सितंबर, 2019 को सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगी और वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के लिए अधिकृत होंगे। एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि किसी व्यक्ति ने एजीएम सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अर्जित किए हों तथा कंपनी कें सदस्य बने हों वे एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर

70वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jmaindia.com तथ सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ / शिकायतों के लिए आप www.evotingindia.com help.jsp पर उपलब्ध frequently asked questions ("FAQ") तथा e-voting manual देखें अथवा श्री राकेश डाल्वी, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, मैराथन पयुचरेक्स, यूनिट नं0. 2501, 25वां तल, ए-विंग, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एन.एम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर रीडिएसएल को ई-मेल करें या हेल्प डेस्क 1800-22-55-33 पर संपर्क करें।

निदेशक मंडल की ओर से जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड सीएस सचिन सलुजा कंपनी सचिव तिथिः 30 अगस्त, 2019 (एम नं. ए24269) स्थानः गुरूग्राम (गुडगांव)

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना

[इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इन्सोल्वेंसी रिसोल्युशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स) रेगुलेशन्स, 2016 के अधिनियम 6 के अंतर्गत]

लिमिटेड हॉटलाईन सीपीटी लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण हॉटलाईन सीपीटी लिमिटेड कॉर्पोरेट देनदार का नाम कॉर्पोरेट देनदार के समावेशन की तिथि 19/06/1996 प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार आरओसी, दिल्ली समावेश/ पंजीकत है यु55101डीएल1996पीएलसी079756 कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट देनदार का सीमित देयता पहचान नंबर कॉर्पोरेट देनदार का पंजीकृत कार्यालय और मुख्य पंजीकृत कार्यालय : 52 ए, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेस-॥, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली, भारत-110020 कार्यालय (यदि कोई हो) का पता कॉर्पोरेट देनदार के दिवालियेपन के प्रारंभ आदेश जारी: 27/08/2019 (तिथि जिस पर माननीय होने की तिथि एनसीएलटी दिल्ली द्वारा आदेश जारी किया गया) आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त की गई: 29/08/2019 इन्सोर्ल्वेसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के बंद होने 23/02/2020 (सीआईआरपी प्रारंभ होने से 180 की अनुमानित तिथि दिन तक) बतौर अंतरिम समाधान पेशेवर कार्य करने वाले नाम: श्री चिराग शाह इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण पंजी. सं: आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी01169/2018-19/11837 अंतरिम समाधान पेशेवर के बोर्ड के साथ पंजीकृत **पंजीकृत पता** : 208, रत्नराज रिंग्रग, नवनिर्माण को और ई–मेल पता ऑप. बैंक के पीछे, एचडीएफसी बैंक हाऊस के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, भारत-380009 ईमेल आईडी: chirag.irp@gmail.com

10. अंतरिम समाधान पेशेवर के बोर्ड के साथ संपर्व पताः एएए इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी 208, रत्नराज रिंग्रग, नवनिर्माण को. ऑप. बैंक के हेतू पता और ई-मेल पता पीछे, एचडीएफसी बैंक हाऊस के सामने, नवरंगपरा, अहमदाबाद, भारत-380009 ईमेल आईडी: hotlinecpt@aaainsolvency.com 11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 12/09/2019 12. अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 लागू नहीं की उपधारा (6ए) के क्लॉज (बी) के अंतर्गत. यदि कोई हो, लेनदारों का वर्गीकरण 13. इन्सोल्वेंसी पेशेवरों के नाम जो एक वर्ग में लागू नहीं लेनदारों के बतौर प्राधिकृत प्रतिनिधित्वकर्ता पहचाने गये हैं (प्रत्येक वर्ग के लिये तीन नाम)

निम्न में उपलब्ध है: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दिल्ली ने 27/08/2019 (आदेश की प्रतिलिपि 29/08/2019 को प्राप्त की गई) को **हॉटलाईन सीपीटी लिमिटेंड** के विरूद्ध कॉर्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश जारी किया है, नोटिस इसीलिए दिया जा रहा है ।

लागु नहीं

www.ibbi.gov.in/downloadform.html

हॉटलाईन सीपीटी लिमिटेड के लेनदारों को उनके दावों के संबंध में एट्टी क्र. 10 में अंतरिम रिजोल्यशन पेशेवरों के दर्शाये पते 12/09/2019 को या इसके पूर्व एक साक्ष्य जमा करने का बुलावा दिया जा रहा है । दावों के साक्ष्य निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा-

• फॉर्म बी : ऑपरेशनल लेनदारों के दावों के लिए. मजदरों और कर्मचारियों के अतिरिक्त.

● फॉर्म सी: फाईनेंशिएल लेनदारों के दावों के लिए.

●फॉर्म डी: वर्कमेन एवं कर्मचारियों के दावों के लिए, फॉर्म ई: वर्कमेन एवं कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के दावों के लिए, • फॉर्म एफ : लेनदारों के दावों के लिए (वित्तीय लेनदारों एवं ऑपरेशनल लेनदारों के अतिरिक्त)।

उपरोक्त फॉर्म वेबसाईट www.ibbi.gov.in/downloadform.html से डाऊनलोड किये जा सकते हैं । इन्सोर्ल्वेसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इन्सोर्ल्वेसी रिसोल्युशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स) रेगुलेशन्स, 2016 के अंतर्गत वित्तीय लेनदार दावे संबंधी अपने साक्ष्य केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं। अन्य सभी लेनदार उनके

दावे साक्ष्य सहित व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं । गलत पेश किए गए साक्ष्यों पर पेनॉल्टी लगाई जाएगी।

अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम और हस्ताक्षर :

14. (ए) संबंधित फॉर्म एवं

(बी) अधिकृत प्रतिनिधित्वकर्ता का विवरण

(चिराग शाह)

epaper.jansatta.com

अंतरिम समाधान पेशेवर हॉटलाईन सीपीटी लिमिटेड के मामले में

पंजीकरण सं : आईबीबीआई/आईपीए–००१/आईपी–पी०११६९/२०१८–१९/११८३७ दिनाँक: 31.08.2019 स्थान: अहमदाबाद

"Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to anotherBefore the Regional Director

Northern Region, Delhi Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Dhansri Fab-Tech Private Limited (CIN- U27100DL2008PTC176388) having its registered office at Flat No FF-3, Essel Apartments, 13/41 Punjabi Bagh (West), Delhi- 110026.

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on 04th July, 2019 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Assam". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Flat No FF-3, Essel Apartments, 13/41 Punjabi Bagh (West), Delhi-110026 For and on behalf of the Applicant

(Kailash Modi) Date 08th July, 2019 (DIN-00549402) Director Place Delhi

> JINDAL CAPITAL LTD. Regd. Office: 79-A, Kamla Nagar, Delhi 110007 Tel: 011-23841536; CIN: L65910DL1994PLC059720 Email: investor@jindalcapital.in, Website: www.jindalcapital.in

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Members of M/s JINDAL CAPITAL LIMITED (CIN L65910DL1994PLC059720) will be held on Monday the 30th September, 2019 at 10:00 A. M. at 79-A, Kamla Nagar, Delhi - 110007

Notice is also given pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under, that the Registrar of Members and Share Transfer Books shall remain closed from September 25th, 2019 to September 30th, 2019 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of members to cast vote in the forthcoming Annual

Notice is also given that the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Notice of the ensuring Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent to all the Shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar and share Transfer Agents/ Depository Participants, Physical Copies of the Notice of the ensuing Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent to all other shareholders at their Registered Address in the

 terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company provides all its members the facility of E- Voting at the ensuring Annual General Meeting by electronic means for the business stated in the Notice of the Annual General Meeting. The Shareholders are required log on to e-Voting system of LIIPL: https://instavote.linkintime.co.in. The E- voting period commences on 27th September, 2019, 9:00 A.M. and ends on 29th September, 2019, 5:00 P.M.

The Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date 23.09.2019, may cast their vote electronically. The voting right shall be as per the number of equity shares held by the Members as on the Cut-off date. The facility for voting through Polling Paper shall also be made available at the venue of Annual General Meeting. The Members who have already cast their vote by remote E-voting prior to the meeting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at

the Annual General Meeting. The Notice of the Annual General Meeting as part of the 25th Annual Report of the Company has been placed on the website of the Company viz. www.jindalcapital.in and is forwarded to LIIPL. In case of any grievances connected with E-voting, please contact https:// instavote.linkintime.co.in. For any difficulties, kindly contact the Secretarial Department by letter or through email: investor@jindalcapital.in.

> For Jindal Capital Limited Pawan Kumar Jindal

Place: Delhi Date: 28.08.2019 Managing Director

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking) शाखा कार्यालयः ३-एच/२, राकेश मार्ग, नेहरू नगर, गाजियाबाद

कब्जा सूचना {नियम ८(१) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिए} जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत युको बैंक, राकेश मार्ग, गाजियाबाद शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 10.06.2019 जारी की थी, जिसके द्वाराः मैसर्स शारदा एण्टरप्राईजेज मालिक- प्रमोद कुमार सिंह (कर्जदार), को सूचना में उल्लिखित राशि रु.1,46,40,801.74 (एक करोड़ छियालिस लाख चालीस हजार आठ सौ एक रूपये चौहत्तर पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था कर्जदार / गारंटर के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के अनुच्छेद 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 27.08.2019 को ले लिया है। कर्जदार / गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन—देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.1,46,40,801.74 (एक करोड छियालिस लाख चालीस हजार आठ सौ एक रूपये चौहत्तर पैसे मात्र) और उस पर अन्य विविध खर्ची के साथ ब्याज, यूको बैंक, राकेश मार्ग, गाजियाबाद शाखा के प्रभार के भूगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण खसरा नं.655 का प्लॉट, हिसाली रोड, बसन्तपुर सैताली, मुराद नगर, जलालाबाद, तहसील—मोदी नगर, गाजियाबाद, (उ०प्र०)

प्राधिकृत अधिकारी स्थानः गाजियाबाद यूको बैंक

तिथिः 27.08.2019

Œ

रुंगटा ईरीगेशन लिमिटेड CIN: L74899DL1986PLC023934

पंजी. कार्यालयः 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 Email: info@rungtairrigation.in, Website: www.rungtairrigation.in Tel: 011-40453330

सचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि रुंगटा ईरीगेशन लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार 24 सितम्बर, 2019 को द एग्जीक्यूटिव क्लब, 439, ग्राम शहूरपुर, पी.ओ. फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली–110030 में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

सभा की आमंत्रण सचना सहित वित्त वर्ष 2018-19 का समेकित वार्षिक रिपोर्ट करियर द्वारा उनके पंजीकृत पते पर तथा जिन सदस्यों ने कम्पनी में अपने ई–मेल पते दर्ज कराये हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिये गये हैं।

उक्त समेकित वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.rungtairrigation.in पर तथा साथ हीं निरीक्षण के लिये सभा की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को व्यावसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है।

सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये किसी प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी का कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रभावी होने के लिये प्रॉक्सी को एजीएम शरू होने से कम से कम 48 घंटे पर्व उसे विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित कर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिये। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराइ गई सेवाओं के द्वारा इलेक्टॉनिक रूप से (ई-वोटिंग) अपना मतदान करने के लिये अपने सभी सदस्यों (भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति दोनों में शेयर धारित करने वाले) को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 21 सितम्बर, 2019 (10.00 बजे पूर्वा. में) शुरू होगी तथा गुरुवार, 23 सितम्बर, 2019 (5.00 बजे अप. में) बंद होगी। ई-वोटिंग के लिये योग्य सदस्यों को सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 17 सितम्बर, 2019 है।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे सभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 2019 से 24 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। पुनः एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.rungtairrigation.in पर भी

ई-वोटिंग/एजीएम में मतदान का परिणाम 26 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व घोषित किया जायेगा। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा तथा साथ ही उसे कम्पनी की वेबसाईट पर स्थापित किया जायेगा तथा जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, उन स्टॉक एक्सचैंजों को इसकी सूचना दी जायेगी।

रुंगटा ईरीगेशन लिमिटेड के लिए

पूजा जुनेजा नई दिल्ली 30 अगस्त, 2019 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



भारताय स्टंट बंक आरएसीपीसी- कम- एसएआरसी फरीदाबाद एससीओ-98, 1 ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16, मार्केट, फरीदाबाद, फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.6.2019 जारी कर ऋणधारक एवं गारन्टर (सुश्री पिंकी सोलंकी तथा पुरण सिंह, एच.नं. 133, ऊंचा गांव रोड बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, द्वारा खाता नं. 30119481347, 32412568934 तथा 37095964777 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 19.06.2019 को रु. 2271065.00 (रुपये बाईस लाख इकहत्तर हजार पैंसठ मात्र)+ 20.6.2019 से ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/ गारन्टरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 20 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 19.8.2019 को रु. 22.34.938.00 (रुपये बाईस लाख चौंतीस हजार नौ सौ अडतीस मात्र) तथा 20.8.2019 से ब्याज के साथ अनुषांगिक लागत, चार्जेज आदि के साथ भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री प्रमोद सोलंकी के नाम में सम्पत्ति प्लॉट नं. 63, 64, 55 मलरेना रोड, बालाजी स्कूल, माप 800 वर्ग यार्डस। तिथि: 27.8.2019 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी

Form A **PUBLIC ANNOUNCEMENT** (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JIYA AGRO PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS

JIYA AGRO PRIVATE LIMITED Name of corporate debtor Date of incorporation of corporate debtor 18.10.2012 Authority under which corporate debtor is Registrar of Companies- Delhi incorporated / registered U51219DL2012PTC243800 Corporate Identity No. / Limited Liability

Identification No. of corporate debtor Address of the registered office and Regd Off: 17, 3rd Floor, Rampuri, Kalkaji, principal office (if any) of corporate debtor | South Delhi, New Delhi- 110019

Insolvency commencement date in respect | 29.08.2019 of corporate debtor Estimated date of closure of insolvency 24.02.2020 resolution process

Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018insolvency professional acting as interim resolution professional 1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board New Delhi- 110035

Rakesh Kumar Jain

rakeshjainca@rediffmail.com

O.Address and e-mail to be used for 1670/120, Shanti Nagar, Tri-Nagar, New Delhi- 110035 correspondence with the interim resolution iprakeshJ1@gmail.com professional 12.09.2019 1.Last date for submission of claims 12.Classes of creditors, if any, under clause

(b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional 3. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised

Representative of creditors in a class

(Three names for each class)

Name and registration number of the

4.(a) Relevant Forms and Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives Physical Address: 1670/120, Shanti Nagar, are available at: Tri-Nagar, Delhi- 110035 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the

The creditors of Jiya Agro Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 12.09.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

commencement of a corporate insolvency resolution process of the Jiva Agro Private

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class (N.A), in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Name and Signature of Interim Resolution Professional RAKESH KUMAR JAIN Date: 31/08/2019

IBBI/ IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068 Place: New Delhi

000 NOUVELLE DCM NOUVELLE LIMITED

Registered office: 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-110008 Corporate Identity Number: L17309DL2016PLC307204

Phone: 011-4501 3348. E-mail: dcmnouvelleltd@gmail.com Website: www.dcmnvl.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given, pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Management Rules"), the Company is seeking approval of the Members by way of Special and/or Ordinary Resolution (s) for the items as set forth in the Notice of the Postal Ballot dated August 26, 2019.

Members are hereby informed that dispatch of the Notice of the Postal Ballot along with Postal Ballot Form have been completed on August 30, 2019.

The Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form has been sent by email to those members who have registered their email addresses with their depository participants (in case of shares held in demat form) or with the Company's Registrar & Share Transfer Agent (in case of shares held in physical form). For members whose email IDs are not registered, physical copies have been sent through physical mode along with a selfaddressed postage-prepaid Business Reply Envelope (BRE).

In compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of Section 108 & 110 of the Act read with the Rule 20 & 22 of the Management Rules, the Company is pleased to provide electronic voting ("e-voting") facility through Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") to its members to enable them to cast their votes electronically.

Pursuant to Rule 22(5) of the Management Rules, the Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Pragnya Parimita Pradhan, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to conduct postal ballot and the e-voting process in a fair and transparent manner.

Only a Member holding shares as on the cut-off date i.e. August 23, 2019, is entitled to exercise his vote through e-voting / Postal Ballot.

Other details are as under:

https://evoting.karvy.com.

 The voting period shall remain open from Saturday, August 31, 2019 (9:00 am onwards) till Monday, September 30, 2019 (upto 5:00 pm). No voting shall be allowed beyond 5:00 pm of September 30, 2019. Please note that if any Postal Ballot Form(s) received after 5:00 pm

on Monday, September 30, 2019, then it shall be treated as if no reply has been received from the member. 3. If a Shareholder votes through e-voting facility as well as cast their

vote through the Postal Ballot Form, the votes cast through e-voting

shall only be considered by the Scrutinizer and voting done by Postal Ballot will be treated as invalid. 4. Members can also download the Postal Ballot Form from the link https://evoting.karvy.com or from the Company's website i.e. www.dcmnvl.com; or seek a duplicate Postal Ballot Form from Skyline Financial Services Private Limited, D-153 A, First Floor,

Okhla Industrial Area, Phase -I, New Delhi-110020, Tel: 011-41044923, Email: info@skylinerta.com 5. The results of the Postal Ballot will be announced on Tuesday, October 01, 2019. The results along with Scrutinizer's report will also be communicated to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Limited and the same will also be placed on Company's website i.e. www.dcmnvl.com and the website of karvyi.e.

6. In case of any query /grievance regarding e-voting, the members may contact Mr. D S Nagaraja, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at evoting@karvy.com or phone no. 040 - 6716 1518 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications. Members can also visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting@karvy.com or the undersigned.

> By the order of the Board of Directors For DCM Nouvelle Limited SD/-

Kunal Agrawal Date: August 30, 2019 Company Secretary Place: New Delhi

ए-16, गांधी नगर, रामपर Bank of India प्राप्त नं.: 0591-2491247

ई-मेलः moradabadSME.ghaziabad@bankofindia.co.in

<u>ेकब्जा</u> सूचना जसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवत्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथ प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) वे अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.5.201 जारी कर ऋणधारक श्रीमती रुखसाना बेगम, पत्नी तनव्वर नबी खान को सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 26,35,589.88 (रु. छब्बीस लाख पैंतीस हजार पांच सौ नवासी तथा पैसे अठासी मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक श्रीमती रुखसाना बेगम, पत्नी तनव्वर नबी खान तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 27 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तिये का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 26,35,589.88 (रु. छब्बीस लाख पैंतीस हजार पांच सौ नवासी तथा पैसे अटार्स मात्र) के साथ 20.5.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा [सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सचना जारी करने के बाद, वसुली यदि कोई हो घटाकर] उस पर आगे के चार्जेज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की

20.5.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का विवरण

श्रीमती रुखसाना बेगम, पत्नी तनव्वर नबी खान के नाम में मोहल्ला रफतपुरा, पी.एस. मुगलपुरा, तहसील एवं जिला मोरादाबाद में स्थित मकान, माप 65.50 वर्ग मीटर क ईक्युएम।

पूर्व: 6 फीट चौड़ी गली पश्चिम: एबचक, हाउस उत्तरः रजियाबेगम का मकान

दक्षिण: मुशाहिद एवं रजा खान का मकान। तिथि: 27.8.2019 बैंक ऑफ इंडिया स्थानः मोरादाबाद मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

महान फूड्स लिमिटड CIN No.: L15419DL1987PLC350285 पंजी. कार्यालयः एम-19, 1ला तल, एम-ब्लॉक मार्केट,

ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली- 110048 ईमेलः sanjeevgoval@mahaanfoods.com वेबसाईटः www.mahaanfoods.com, फोन.: 011-43107200, फैक्स: 011-43107250,

वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिये सुचना एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि महान फुड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 32वीं वार्षिक साधारण सभ शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 को 11.00 बजे पुर्वा. में होटल ब्लू स्टोन सीसी-24, नेहरू एन्क्लेव, मोदी टाव के सामने, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

32वें एजीएम की सुचना तथा वर्ष 2018-19 के लिये वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभ शेयरधारकों जिनके ईमेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट, अलंकित एसाइन्मेन्ट्स लि. पास दर्ज हैं, को भेज दी गई है। 32वें एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां सभी शेयरधारव को स्वीकृत पद्धित में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है तथा वह कम्पनी की वेबसाईट अर्था www.mahaanfoods.com पर उपलब्ध है।

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 4. तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत लागु होने वाले नियमों के अनुपालन में सदस्यों वे रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 से रविवार, 28 सितम्बर, 2019 (दोनं दिवस सिहत) तक वार्षिक साधारण सभा के लिए बंद रहेंगे। भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन

तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में एजीए के किसी अन्यत्र स्थान से इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई का उपयोग कर एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने की सुविधा सदस्यों को उपलब् सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

• व्यवसायों को इलेक्टॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगाः

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (5.00 बजे अप.) तक जारी रहेगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी • इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने की कट-ऑफ तिथि 19 सितम्बर, 2019 है। • यदि कोई व्यक्ति वार्षिक साधारण सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथ कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे evo ing@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि वे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकत हैं तो मतदान करने के लिए वर्तमान यजर आईडी तथा पास्व

● सदस्यगण ध्यान रखें किः क) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगीः ख) जि सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में उपस्थित हो सकते लेकिन, फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे, ग) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्य के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे रिमोट ई वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे।

• 32वें एजीएम की सुचना कम्पनी की वेबसाईट www.mahaanfoods.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोर

फ्री नम्बर 1800-222-990 पर सम्पर्क करें या श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक/ सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, एविंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बाप मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई 400013 से ई मेल आईडी www.evoting.nsdl.co.in अथव amitv@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in अथवा टेलीफोन नं. (022) 24994360 / 24994545 प सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। सदस्यगण ई-मेल आईडी investor@mahaanfoods.com पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर कम्पन

के कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं। बोर्ड के आदेश महान फुड्स लिमिटेड के लि

प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] प्रियस कॉमर्सियल प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

प्रियस कॉमर्सियल प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का U45200DL2006PTC15636 प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता कॉर्पोरेट पताः डी-3, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110017 आरंभ होने की तिथि

दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की 5 फरवरी, 2020 अनुमानित तिथि अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण महेन्दर खण्डेलवाल संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव पताः बी-2ए. सन्नी वैली सीजीएचएस, प्लॉट नं. 27, सेक्टर-12 प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः द्वारका, नई दिल्ली-110078 ईमेलः khandelwalmahendar2@gmail.com पताः प्राइसवाटर हाउस कपर्स प्रा. लि.. प्लॉट-वाई-14. ब्लॉक ईप लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकाता-700091 ईमेलः claims.pc@in.pwc.com ip.m.pc@in.pwc.com 11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

12. क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप लागू नहीं धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरि प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सनिश्चित किया गया 13. किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि लागु नहीं के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) 14. (क) संबंधित प्रपत्र तथा क) http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html)

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ- III ('एनसीएलटी') द्वारा पारित अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनत की नियुक्ति की आदेश की तिथि 9 अगस्त, 2019 है। इस आदेश को 28 अगस्त, 2019 को एनसीएलटी की वेबसाई पर अपलोड किया गया है। तदनुसार, दावे जमा करने का समय एनसीएलटी की वेबसाईट पर आदेश अपलोड किये जाने की तिथि अर्थात्-28 अगस्त, 2019 को 14 दिन माना गया है।

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली ने 9 अगस्त, 2019 को प्रियस कॉमर्सियल प्रॉजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि मद सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्त प्रॉफेशनल के पास 11 सित. 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि

2016 (''सीआईआरपी विनियमन'') के चैप्टर IV के अनुसार जमा किया जायेगा। प्रमाण के साथ दावे निम विनिर्दिष्ट प्रपत्रों मे जमा किये जा सकते हैं। प्रपत्र बीः ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे

प्रपत्र डीः कर्मियों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावे

प्रपत्र ईः कर्मियों अथवा कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये दावे प्रपत्र एफः क्रेडीटरों द्वारा दावे (वित्तीय केडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त) प्रपत्र की प्रति प्राप्त कर के लिये आप उसे वेबसाईट www.ibbi.gov.in (http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html) तर

सीआईआरपी विनियमनों से डाउनलोड कर सकते हैं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

महेन्दर खंडेलवात अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशन प्रियस कॉमर्सियल प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटे IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/1008

तिथि: 29 अगस्त. 2019 दिल्ली

प्रबंध निदेशव DIN: 0022109

(ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण ख) लागू नहीं

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर

दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव पुक्रिया) विनियमन

प्रपत्र सीः वित्तीय क्रेडीटर द्वारा दावे

नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 30.8.2019